

1.	BSA College, Mathura	M/S Vijay Chhonkar Through prop. Vijay Chhonkar	1. All part & parcel of residential plot no. 12 bearing water rate no. 250/32 on the part of khasra no. 2511, situated at Mauza Mathura bangar inside Rishi nagar, Maholi Road, Tehsil & Distt. Mathura in the name of Vijay chhonkar S/O Babu Lal having Area 167.22 sq. mt. Having Boundaries of house as under (as per title deed): E- House on Natholi W-Plot no.11 N-Rasta 20 ft. wide S-Plot no.13 2. Hypothecation of all current asset including book debts, stocks, & fixed asset in present/ future financed by bank			(Rupees Twenty Two lac Twenty Thousand Four Hundred Seventy Eight And Paise Ninety Three only) + interest w.e.f 01.05.2022 + Other Charges
2.	KDDC, Mathura	Bacchu Singh S/O Inder Singh And Banwari S/O Bhanwar Singh	Equitable mortgage of all part & parcel of residential property situated at khasra no. 282, Mauja Veesu, tehsil & distt. - Mathura in the name of Banwari S/o Bhanwar singh. Having super area 632.24 sqmt. Having Boundries as under (as per title deed): E: Khet Kirori etc. W: Road 18' wide N: Land Madho singh S: Land Madhe Singh	22.02.2022	17.06.2022	Rs. 10,03,144.00 (Rupees Ten Lakhs Three Thousand One Hundred Forty Four Only) + interest w.e.f 01.06.2022 + Legal charges
3.	KDDC, Mathura	M/S Sona Metal through prop. Mukesh Kumar	1. All the part & parcel of Residential Plot no.80 (Part), Khasra no.205 situated at Mauza Girdharpur, inside Charbagh Colony, Tehsil & District- Mathura in the name of Mukesh S/O Foolchand & Balram S/O Foolchand having super area 115.49 sqmt. Bounded as under (as per title deed)— East-Plot no. 79 West-Plot no.80 (Part) North-Plot no. 73 & 74 South-Rasta 20 ft. wide 2. All the part & parcel of Residential Plot no.80 & 81 (Part), Khasra no.205 MI, situated at Mauza Girdharpur inside Charbagh Colony, Tehsil & District- Mathura in the name of Mukesh Kumar S/O Foolchand having super area 115 sqmt. Bounded as under (as per title deed)— East-Plot no. 79 West-Plot no.80 & 81 (Part) North-Plot no. 75 South-Rasta 20 ft. wide 3. All the part & parcel of Residential Two Plot no.80 & 81 (Part), Khasra no.205 MI, situated at Mauza Girdharpur inside Charbagh Colony, Tehsil & District- Mathura in the name of Balram Singh S/O Foolchand having super area 115 sqmt. Bounded as under (as per title deed)— East-Plot no. 79 West-Rasta 20 Ft. Wide North-Plot no.73, 74, 75 South-Rasta 20 ft. wide 4. Hypothecation of all current assets including stocks, book debt and fixed assets in present or future financed by bank	25.11.2020	17.06.2022	Rs. 23,47,209.84 (Rs. Twenty Three Lakhs Fourty Seven Thousand Two Hundred Nine And Paise Eighty Four Only) +interest w.e.f 01.06.2022 + Other Charges.
4.	Ramghat Road Aligarh	Rameshwar Dayal Chand S/O Shekh Chand And Harish Dandar W/O Rameshwar Dayal	1) All part and parcel of Residential House of Rameshwar Dayal S/O Shekh Chand Situated in Part of Khet no.165, Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 50.166 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-Rasta 16 ft. Wide West-Arazi Seller North-Arazi Seller South-Plot Purchaser 2) All part and parcel of Residential House of Rameshwar Dayal S/O Shekh Chand Situated in Part of Khet no.165, Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 50.166 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-Rasta 16 ft. Wide West-Arazi Seller North-House Seller South-Plot Shiv Kumar	21.02.2021	20.06.2022	Rs. 19,63,358.71 (Rupees Nineteen Lakhs Sixty Three Thousand Three Hundred Fifty Eight And Paise Seventy One Only) interest w.e.f 01.06.2022 + Legal charges
5.	Ramghat Road Aligarh	M/S Sha and sons through prop. Bhoore Khan S/O Chand Khan	1. All the part & parcel of Residential house situated on part of Khasra no.155, inside Aabadi, Thakur wali gali, Mullapara, Bhujpura, Pargana and Tehsil Koil, Aligarh Owner- Bhure Khan S/O Late Chand Khan having area 210.67 Sqmt. Having boundaries as under (as per title deed): East-Rasta 9 ft. wide. West - Khet Ganga Prasad Kavi. Now legal heirs. North - House legal heirs of Virendra South- Plot Chandra Pal. 2. Hypothecation of all current assets including book debts, stocks & Fixed assets present or future financed by bank	10.12.2021	20.06.2022	Rs. 37,71,609.50 (Rs. Thirty Seven Lakhs Seventy One Thousand Six Hundred Nine And Paise Fifty Only) +interest w.e.f 01.06.2022 +Other Charges.
6.	Ramghat Road Aligarh	Akeel Khan S/O Late Sh. Munney Khan And Smt. Saumin W/O Akeel Khan	Equitable mortgage of all part & Parcel of Residential plot/property situated at part Of Khet number 165, Village-Barola Jafrabad, Par. & Tehsil - Koil, Aligarh in the name of Akeel Khan S/O Late Munney Khan Having area 50.166 Sqmt. Having Boundaries as Under:- East-Arazi Babu West- Rasta 15 ft, Wide North-Arazi Vendor South-Plot of Rameshwar	04.12.2021	20.06.2022	Rs. 10,38,742.71 (Rupees Ten Lakhs Thirty Eight Thousand Seven Hundred Forty Two And Paise Seventy One only) + interest w.e.f 01.06.2022 + Other Charges.
7.	Ramghat Road Aligarh	M/S B & S C Hardware Company Prop. Rameshwar Dayal S/O Late Shekh Chand	1) All part and parcel of Residential House of Son Pal Singh S/O Late Shekh Chand Situated in Part Of Khet no.379/5, Mauza Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 65.88 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East -House Baldev Giri West-Plot Basanti Devi & Plot Pratap Singh North-House Other South-Plot Pratap Singh & Rasta 20 ft. Wide 2) All part and parcel of Residential House of Pratap Singh S/O Late Shekh Chand Situated in Part of Khet no.379/5, Mauza Barola Jafrabad Par. & Tehsil-Koil, Aligarh having area 73.58 Sq.mt. Having Boundries as under (as per title deed): East-Plot Son pal Singh West-Plot Basanti Devi North-Plot Son Pal Singh South-Rasta 20ft. Wide 3) Hypothecation of all current assets including stocks, book debts & fixed assets in present or future financed by bank	21.02.2022	20.06.2022	Rs. 10,27,295.50 (Rs. Ten Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred Ninety Five And Paise Fifty Only) +interest w.e.f 01.06.2022 +Other Charges .

**DCM SHRIRAM LTD.**  
 Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor (West Wing),  
 Worldmark 1, Aerocity, New Delhi-110037  
 Tel : 011-42100200  
 CIN No.: L74899DL1989PLC034923  
 E-mail: shares@dcmshriram.com  
 Website: www.dcmshriram.com

**NOTICE**  
 (For the attention of Equity Shareholders of the Company)

This notice is being published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016.

The aforesaid Rules have prescribed the manner of dealing with the shares in respect of which dividend has remained unclaimed / un-paid for seven consecutive years or more. As per the said Rules, such shares alongwith unclaimed/ un-paid dividend shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority. The list of such shareholders is being uploaded on the Company's website at www.dcmshriram.com. In compliance with the Rules, individual letters of information are also being sent to the shareholders at their latest available address who have not en-cashed their dividend for last 7 years i.e. since the final dividend for FY 2014-15 onwards as per the records of the Company and this notice is being issued accordingly. The concerned shareholders are requested to write to the Company/ Registrar and Share Transfer Agent - M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd., F-65, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020 Tel.: 011-41406149-52, E-mail : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. For any clarification, shareholders are requested to refer to the individual notice sent to you. A Copy of the said notice is also available on the website of the Company at www.dcmshriram.com.

Please quote your folio/DP ID number in all correspondence.

For DCM Shriram Ltd.  
 Sd/-  
 Sameet Gambhir  
 Place: New Delhi Company Secretary  
 Date: 21.06.2022 & Compliance Officer

4.	Nager Raml
5.	Mahe Soshi
6.	Legal Ram Savit Chau Force
7.	Ravi Mrs.
8.	Susi Biju Ritu Holi
9.	Ami Sup Sal

For de  
<https://h>  
 Date: D

**पंजाब नैशनल बैंक**  
 ... भरोसे का प्रतीक!

Whereas, been the Authorized Officer/s of the F powers conferred under Section 13 read with borrower/s to repay the amount as mentioned hereby given to the borrower and the public in g section (4) of Section 13 of Act read with Rule property/ies and any dealing with the property/ies to provisions of sub-section (8) of section 13 of th

Sl. No.	(a) Name of Branch (b) (c) Name of Borrowers/Guar
1.	(a) Branch: Meerut College, (b) M/s Baba M (c) M/s Baba Motors Under Proprietorship of Add 1: Main Hapur Road, Village, Kharkha A-66, EME Colony, KD International Schoo Smt. Dimple Tyagi W/o Shri Neeraj Tyagi ( Main Hapur Road, Village Kharkhauda, Mee KD International School, Sardhana Road, Ishwar Chand (Guarantor), Add: 314, Badn
2.	A Residential House No. 66/510 measur Pargana Tehsil & Distt. Meerut in the nam 16 Feet 10 inches/Adjoining Plot No. 65, S
2.	(a) Branch: Meerut College, (b) M/s. Baig E (c) M/s Baig Enterprises under Proprietorsh 3. Shyam Nagar, Plokhari Road, Meerut- (Prop.), Add: 3, Shyam Nagar, Plokhari Ro W/o Mr. Yasin Baig, (Guarantor/Mortgag Meerut- 250002.

Date: 21.06.2022

से याद जिसका व्यक्ति का हस्त प्रभावतः प्राप्त हो। यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर वी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते तंजा डिजाइनस प्राइवेट लिमिटेड  
हस्ता/-  
मनीष जैन  
दिनांक : 21.06.2022  
स्थान : नई दिल्ली

डीआईएन : 00964919  
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एम-24 फ्लोर फ्लोर मेन सेड,  
शेअर कैलास-1, नई दिल्ली - 110048

**डीसीएम श्रीराम लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (परिचय विंग),  
वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली-110037  
फोन: 011-42100200  
सीआईएन नंबर: L74899DL1989PLC034923  
ई-मेल: Shares@dcmsriram.com  
वेबसाइट: www.dcmsriram.com

**सूचना**  
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

यह नोटिस 7 सितंबर, 2016 से प्रभावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016, संशोधित ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

पूर्वोक्त नियमों ने उन शेयरों के साथ व्यवहार करने का तरीका निर्धारित किया है जिसके संबंध में लामांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक वर्षों के लिए दवां न किया गया / भुगतान नहीं किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार, दावा न किए गए / भुगतान न किए गए लामांश के साथ इस तरह के शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट www.dcmsriram.com पर अपलोड की जा रही है। नियमों के अनुपालन में, शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचना के लिए व्यक्तिगत पत्र भी भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों यानि कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम लामांश के बाद से अपने लामांश को भुनाया नहीं है और यह नोटिस तदनुसार जारी किया जा रहा है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट - मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज -I, नई दिल्ली-110020 दूरभाष: 011-44406149-52, ई-मेल: helpdeskdelhi@mcsegregistrars.com को लिखें।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आपको भेजे गए व्यक्तिगत नोटिस का संदर्भ लें।

उक्त नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.dcmsriram.com पर भी उपलब्ध है। कृपया सभी पत्राचार में अपना फालो/ डीपी आईडी नंबर उद्धृत करें।

कृते डीसीएम श्रीराम लिमिटेड  
हस्ता/-  
समीत गम्भीर  
स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 21.06.2022

कंपनी सचिव और  
अनुपालन अधिकारी

1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम  
2. कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि  
3. उस अधिदारी का नाम, जिसके अधीन देनदार निगमित / पंजीकृत है  
4. कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या  
5. कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यालय (यदि कोई है) का पता  
6. कॉर्पोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला प्रा की तिथि  
7. अभिलिखित की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की ति  
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन रि आवेदकों के लिए पात्रता निर्मांलिखित पर है।

9. धारा 29ए के अधीन लागू अवयोज्यता के निमांलिखित पर उपलब्ध है:  
10. अभिलिखित के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम ति ति नहीं होगी।  
11. संभावी रिजॉल्यूशन आवेदकों के अंतिम निर्माण की तिथि  
12. अंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की तिथि  
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची करने के अंतिम तिथि  
14. संभावी रिजॉल्यूशन आवेदकों को सूचना के इवेल्यूएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना के लिए अनुरोध के निर्माण की तिथि  
15. रिजॉल्यूशन योजना के लिए अनुरोध, ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का तरीका  
16. रिजॉल्यूशन योजना को जमा करने की अंतिम तिथि  
17. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास समाधान को जमा करने का तरीका  
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णय प्राधिकार रिजॉल्यूशन योजना को जमा करने की अनुमोदन के अंतिम तिथि  
19. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तथा संख्या  
20. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, पता तथा वेबसाइट  
21. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल  
22. अधिक विवरण निमांलिखित पर या के पते पर उपलब्ध है।  
23. फॉर्म-जी के प्रकाशन की तिथि

हस्ता/-  
सुनील कुमार मेहरोत्रा  
मॉडिग के लिए नियुक्त अध्यक्ष

Public Shareholders holding the EQ Shares in Offer as per the procedure on page 27 of the Letter of Offer

7. All the observations received from 2022, in terms of Regulation 16 (4) of Offer.

8. There are no other material updates Documents.

9. To the best of the knowledge of the Acquirer to be implemented in the Letter of Offer' on page 25 of the Letter of

10. Schedule of Activities:

Schedule of		
Issue date of the Public Announ		
Publication date of the Detailed I		
Last date for filing the Draft Lette		
Last date for the public announ		
The last date for receipt of comm will be received (in the event SEI information from the Manager)		
Identified Date*		
Last date for dispatch of the Lett Target Company whose names a Identified Date		
Last date by which a committee Target Company is required to gi Shareholders for this Offer		
Last date for upward revision of		
Last date of publication of openi newspapers in which the Detaile		
Date of commencement of Tend		
Date of closing of Tendering, Per		
Last date of communicating the payment of consideration or refu		

Note: The above timelines are in receipt of requisite approvals from above may be completed prior to @Actual date of receiving SEBI's # There has been no competing \*Identified Date is only for the pu Public Shareholders (registered o eligible to participate in this Offer

11. The copies of the inspection doc of Offer will be available for inspe AARPEE Center, MIDC Road No inspection documents accessible Manager, on any working day bet commencing from Thursday, Jun

12. The Acquirer accepts full responsi in the SEBI (SAST) Regulations. www.sebi.gov.in, BSE at www. www.purvashare.com, and Mans

13. The capitalized terms used in this f

Issued by the Manager to the C

**CAPITALSQUAR**  
Teaming together to create val

Date: Tuesday, June 21, 2022  
Place: Mumbai